



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आषाढ़ 1947 (श10)

(सं0 पटना 1161) पटना, शुक्रवार, 27 जून 2025

सं० 01/सा0सु0 योजना-06/2025-1526/स0क0  
समाज कल्याण विभाग  
(सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)

संकल्प

25 जून 2025

विषय :- राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना अन्तर्गत वर्तमान में पात्र लाभुकों को दी जा रही पेंशन की राशि माह जून, 2025 से रू0 400/- (चार सौ रुपये) को बढ़ाकर रू0 1100/- (ग्यारह सौ रुपये) प्रतिमाह करने एवं इसके निमित्त कुल रू0 106,76,40,000/- (एक सौ छः करोड़ छिहत्तर लाख चालीस हजार रुपये) के अतिरिक्त वार्षिक व्यय का वहन राज्यांश/राज्य योजना मद से किये जाने की स्वीकृति।

समाज कल्याण विभाग के अधीन सामाजिक सुरक्षा निदेशालय अन्तर्गत राज्य के बी0पी0एल0 परिवार के 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को मासिक आर्थिक सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना संचालित की गयी है।

- इस योजनान्तर्गत राज्य के बी0पी0एल0 परिवार के 18-79 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांगजनों को रू0 400/- (चार सौ रुपये) प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है, जिसमें रू0 300/- (तीन सौ रुपये) केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 100/- (एक सौ रुपये) राज्य सरकार द्वारा अंशदान दिया जाता है। पेंशन की राशि उनके बैंक खाता में डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।
- इस योजना में वित्तीय वर्ष 2014-15 के पश्चात देय पेंशन की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। वर्तमान में बढ़ती मँहगाई एवं अन्य राज्यों द्वारा दिव्यांगजनों को दी जा रही मासिक पेंशन की देय राशि को ध्यान में रखते हुए इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना अन्तर्गत दी जा रही मासिक पेंशन की राशि में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की गयी है।
- उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना अन्तर्गत वर्तमान में पात्र लाभुकों को दी जा रही पेंशन की राशि माह जून, 2025 से रू0

400/- (चार सौ रुपये) को बढ़ाकर रू0 1100/- (ग्यारह सौ रुपये) प्रतिमाह करने एवं इसके निमित्त कुल रू0 106,76,40,000/- (एक सौ छः करोड़ छिहत्तर लाख चालीस हजार रुपये) के अतिरिक्त वार्षिक व्यय का वहन राज्यांश/राज्य योजना मद से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. इस योजना अन्तर्गत पेंशन की दर रू0 1100/- (ग्यारह सौ रुपये) प्रतिमाह किये जाने से राज्य के पात्र दिव्यांगजनों को रू0 300/- (तीन सौ रुपये) केन्द्रांश मद से एवं रू0 800/- (आठ सौ रुपये) राज्यांश मद से दिया जायेगा।
6. प्रस्ताव पर संचिका सं0-01/सा0सु0 योजना-06/2025 के टिप्पणी पृष्ठ 18/टि0 पर दिनांक-24.06.2025 को मद सं0-41 में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
बन्दना प्रेयषी,  
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1161-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>